



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, जून 26—जुलाई 2, 2005, शनिवार/आषाढ़ 5—आषाढ़ 11, 1927

No. 12]

NEW DELHI, JUNE 26—JULY 2, 2005, SATURDAY/ASADHA 5—ASADHA 11, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मई, 2005

का.नि.आ. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- नौसेना समूह 'ख' (वैज्ञानिक कर्मचारिवृंद पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में :—
 - (1) स्तंभ 5 में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात् :— "चयन अथवा अचयन पद।";
 - (2) क्रम संख्यांक 1 में वर्णित पद के सामने, स्तंभ 13 के अधीन, "प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:—" के स्थान पर, "समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध

में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—" शब्द रखे जाएंगे;

- (3) क्रम संख्यांक 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 5 के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— "चयन"।

[फा. सं. सी.पी. (एन.जी.)/2828/आर.आर./181/डी.(नियुक्ति)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, का.नि.आ. सं. 55, तारीख 12 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th May, 2005

S.R.O. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Navy Group 'B' (Scientific Staff Posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

- (1) These rules may be called the Navy Group 'B' (Scientific Staff Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Navy Group 'B' (Scientific Staff Posts) Recruitment Rules, 2003,
- (1) for the heading in column 5, the following heading shall be substituted, namely :—
“Whether selection post or non-selection post.”;
- (2) against the post appearing at serial number 1, under column 13, for the words “Group ‘B’ Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation :—”, the words “Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—” shall be substituted;
- (3) against the post appearing at serial number 3, under column 5, for the entry, the following entry shall be substituted, namely “Selection”.

[File No. CP(NG)/2828/RR/181/D(Appt.)]
R. B. JOSHI, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.R.O. 55, dated the 12th April, 2003.

नई दिल्ली, 19 मई, 2005

का.नि.आ. 43.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि के महाराष्ट्र राज्य में अनुसंधान एवं विकास स्थापना (इंजीनियर्स), दिघी, पुणे के आस-पास होने की वजह से, इस भूमि के प्रयोग तथा उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगाना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भवनों तथा अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि के रेखाचित्र का निरीक्षण कलेक्टर, पुणे के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में अनुसंधान एवं विकास स्थापना (इंजीनियर्स), दिघी, पुणे-411015 के बाहरी प्राचीर के शीर्ष से 110 गज की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र की सारी भूमि।

[फा. सं. डी सी डब्ल्यू ई/07/34079/डब्ल्यू डी ए/आर एण्ड डी ई(ई)]
रोजी शर्मा, उप सचिव

New Delhi, the 19th May, 2005

S.R.O. 43.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of Section 7

of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereunder, being land in the vicinity of Research and Development Establishment (Engrs), Dighi, Pune-411015 in the State of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the Collector, Pune.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 110 yards from the crest of the outer parapet of the Research and Development Establishment (Engrs.), Dighi, Pune-411015 in the State of Maharashtra.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/R&DE(E)]
ROS Y SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 44.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल एस. के. सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/30/शाहजहांपुर/सी/डीई/2001/1541/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 44.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board **Shahjahanpur** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. S. K. Singh.

[File No. 19/30/Shahjahanpur/C/DE/2001/1541/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 45.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, शाहजहांपुर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल वी. के. रस्तोगी को छावनी बोर्ड, शाहजहांपुर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन ले. कर्नल एस. के. सिंह के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/30/शाहजहांपुर/सी/डीई/2001/1541/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 45.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that **Col. V. K. Rastogi** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Shahjahanpur** by the Station Commander, **Shahjahanpur** in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act, vice **Lt. Col. S. K. Singh** whose resignation has been accepted.

[File No. 19/30/Shahjahanpur/C/DE/2001/1541/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 46.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण कमान द्वारा **कर्नल दिवाकर डोगरा** का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, **वेलिंगटन** में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/28/वेलिंगटन/सी/डीई/2001/1540/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 46.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board **Willington** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, **Southern Command** of resignation of **Col. Diwaker Dogra**.

[File No. 19/28/Willington/C/DE/2001/1540/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 47.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, **वेलिंगटन** ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **कर्नल पी. के. धोदापकर** को छावनी बोर्ड, **वेलिंगटन** का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन **कर्नल दिवाकर डोगरा** के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/28/वेलिंगटन/सी/डीई/2001/1540/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 47.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that **Col. P. K. Dhodapkar** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Willington** by the Station Commander,

Willington in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act, vice **Col. Diwaker Dogra** whose resignation has been accepted.

[File No. 19/28/Willington/C/DE/2001/1540/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 48.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा **ले. कर्नल गिरिश पान्डेय** का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, **लेन्सडाउन** में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/45/लेन्सडाउन/सी/डीई/2001/1543/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 48.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board **Lansdowne** by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, **Central Command** of resignation of **Lt. Col. Girish Panday**.

[File No. 19/45/Lansdowne/C/DE/2001/1543/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 49.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, **लेन्सडाउन** ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **ले. कर्नल घनश्याम सिंह** को छावनी बोर्ड, **लेन्सडाउन** का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन **ले. कर्नल गिरिश पान्डेय** के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/45/लेन्सडाउन/सी/डीई/2001/1543/डी (क्यू एण्ड सी)]
आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 49.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that **Lt. Col. Ghanshyam** has been nominated as a member of the Cantonment Board, **Lansdowne** by the Station Commander, **Lansdowne** in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act, vice **Lt. Col. Girish Panday** whose resignation has been accepted.

[File No. 19/45/Lansdowne/C/DE/2001/1543/D (Q & C)]
R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 50.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल अरूण कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बरेली में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/17/बरेली/सी/डीई/2001/1542/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 50.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Bareilly by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. Arun Kumar.

[File No. 19/17/Bareilly/C/DE/2001/1542/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2005

का.नि.आ. 51.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, बरेली ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल राजेश आनंद को छावनी बोर्ड, बरेली का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल अरूण कुमार के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा. सं. 19/17/बरेली/सी/डीई/2001/1542/डी (क्यू एण्ड सी)]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2005

S.R.O. 51.—In pursuance of Sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. Rajesh Anand has been nominated as a member of the Cantonment Board, Bareilly by the Station Commander, Bareilly in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-section (3)

of Section 13 of that Act vice Col. Arun Kumar whose resignation has been accepted.

[File No. 19/17/Bareilly/C/DE/2001/1542/D (Q & C)]

R. S. DUDANI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 मई, 2005

का.नि.आ. 52.—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4, तारीख 28 जून, 2002 के पृष्ठ 351 से 354 पर का.नि.आ. सं. 150, तारीख 28 जून, 2002 के द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11375/आर. आर./एस.टी./डी. जी.ए.एफ.एम.एस/डी.जी. 2 बी/706/डी (नियुक्ति) तारीख 28 जून, 2002 के हिन्दी पाठ में पृष्ठ 352 पर नियम 5 के स्थान पर पढ़ें— '5' "शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।"

[फा. सं. 11375/आर आर/एस टी/डी जी ए एफ एम एस/डी जी-2

बी/202/आर.आर./रक्षा (नि.)]

आर. बी. जोशी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th May, 2005

S.R.O. 52.—In the English version of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence number 11375/RR/ST/DGAFMS/DG-2B/706/D (Appts), dated the 28th June, 2002, published vide S.R.O. number 150, dated the 28th June, 2002 and at pages 354 to 356 in Part II, Section 4 of the Gazette of India, at page 355, for rule 5 read—'5' "power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

[File No. 11375/RR/ST/DGAFMS/DG-2B/202/RR/D(A)]

R. B. JOSHI, Under Secy.